

29<sup>th</sup> January 2024

To,  
**Listing Department,**  
**BSE Limited,**  
1<sup>st</sup> Floor, P J Towers,  
Dalal Street, Mumbai – 400 001.

**Scrip Code** : 542866  
**Scrip Id** : COLABCLOUD

Dear Sir/Madam,

**Subject: Newspaper Advertisement for Postal Ballot Notice.**

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015, Notice of the Postal Ballot for various business transactions as approved by board of directors for which shareholders approval are further required is published in the following newspapers:

1. English Newspaper (Having nation-wide circulation)
2. Hindi Newspaper (Having Regional circulation)

You are requested to take the above cited information on your records.

Thanking You,

**For Colab Cloud Platforms Limited**  
*(Formerly known as JSG Leasing Limited)*

**Deepika Undhad**  
**Company Secretary and Compliance Officer**  
**Membership No: A41244**

Encl.: As above



# How to make tax return scrutiny less stressful



**TRUTH BE TOLD**  
HARSH ROONGTA

In 2022-23, a landmark shift occurred in Indian taxation: For the first time, income-tax revenues from individual taxpayers surpassed those from corporations. This breakthrough may be attributed to the successful implementation of the Integrated Taxpayer Data Management System (ITDMS) which aggregates extensive data on various high-value transactions, including cash dealings, jewellery sale and purchase, car purchases, foreign travel, investments in bonds and shares, and earnings such as interest, dividends, and capital gains. This data is sourced from a multitude of entities, including banks, post offices, regional transport offices, depositories, stock exchanges, etc.

Combined with the integration of Tax Deducted at Source (TDS)/Tax Collected at Source (TCS) data, ITDMS offers a 360-degree view of a taxpayer's financial activities. It has broadened the tax base and improved compliance. Taxpayers, too, have reaped benefits. The tax department now accepts the bulk of tax returns and processes refunds swiftly.

The department has also introduced the National Faceless Assessment Centre (NaFAC), which has transformed how tax scrutiny is conducted. Taxpayers subjected to detailed assessments can submit all required information online. NaFAC aims to complete assessments within 12-15 months. Taxpayers who do not agree with the assessment orders

passed by NaFAC can file appeals online through the National Faceless Appeal Centre (NFAC).

However, issues remain. Tax department officials, serving as initial judicial authorities, often tend to favour the department in their rulings. Additionally, the NFAC operates without a mandated deadline for resolving appeals submitted by taxpayers. Taxpayers must also pay 20 per cent of the disputed demand before they can file an appeal with NFAC.

In theory, these advancements should make life easier for taxpayers. In practice, the pressure of high tax collection targets, overbearing and antiquated attitudes of income-tax officials, and a lack of accountability has led to far greater harassment of individuals whose returns are selected for scrutiny.

Tax officials pass high-pitched income-tax assessment orders (additional income at least equal to the returned income) and get taxpayers to cough up 20 per cent of the amount before appeal. While the department often loses these appeals, in the near term the tax officials manage to achieve their collection targets. Assuming that only 2 per cent of returns undergo scrutiny, approximately 14 lakh taxpayers are affected annually.

Taxpayers disputing NFAC's decisions can appeal to the Income Tax Appellate Tribunal, where they can expect justice at the hands of independent judicial officials.

Taxpayers face harassment on several counts. NaFAC officials demand information they already have, including copies of tax returns filed online with the department. After an initial round of queries where the taxpayer submits voluminous information, the tax department remains silent for

months. The taxpayer assumes the department has accepted their submissions and expects a favourable order. The tax officials wake up near the deadline and ask for more voluminous information, giving only five-six days to submit the information, citing the looming deadline. If the information is submitted even a minute late, the information is disregarded.

Taxpayers who have any doubts about their appeals choose to settle with the tax department by using the *Vivaad se Vishwas tak* scheme.

The department is sure to eventually lose most of the pending appeals and will have to refund the 20 per cent amount paid. The NFAC, hence, delays decisions. In many cases, appeals have been pending for more than five years. Grievances filed (including on the PMO portal) are routinely side-stepped by NFAC.

NaFAC and NFAC can lead to India acquiring a reputation for a just tax administration system, provided the following reforms are implemented: excluding disputed tax collections from revenue targets; holding officials accountable for requesting unnecessary information; ensuring timely responses to taxpayer submissions; and mandatory time-bound decisions from NFAC.

Truth be told, the Indian government has successfully implemented several large-scale, tech-driven initiatives like Aadhaar, UPI, Account Aggregator, and ONDC. NaFAC and NFAC have the potential to join this list and contribute to a fair and just tax administration provided the above-mentioned recommendations are implemented.

*The writer heads Fee-Only Investment Advisors LLP, a Sebi-registered investment advisor. X: @harshroongta*

# 80G deduction: Eligibility, purpose of donation must qualify

Percentage of donated amount eligible for deduction may vary

BINDISHA SARANG

If you have donated to the Ayodhya Ram Mandir Trust during the current financial year, you would be entitled to a tax deduction. The central government had recognised the Shri Ram Trust as eligible for Section 80G(2)(b) purposes from 2020-21.

The Income-Tax (I-T) Act of 1961 allows for tax deductions on donations made to a variety of notified charitable organisations and religious trusts (including mosques, gurudwaras and churches) under Section 80G. Says Rudra Srivastava, partner, Singhania & Partners LLP: "Sections 80G, 80GGA, 80GGB, and 80GGC of the I-T Act pertain to deductions linked to donations. An assessee can avail deductions ranging from 50 to 100 per cent of the donation amount, based on the recipient's eligibility."

## Section 80G

Section 80G provides the overarching framework for tax deductions on donations made to charitable trusts, religious organisations, and other specified entities. Individuals can claim these deductions against their gross total income.

Donations to some specified organisations are eligible for a 100 per cent or 50 per cent deduction without any limit linked to the qualifying amount. For others, the deduction is limited to either 50 per cent of the donation or 10 per cent of the adjusted total income, whichever is lower. Says Suresh Surana, founder, RSM India: "Only monetary donations qualify for deductions. Donations in kind, such as food, clothes, medicines, etc. do not. Donors should obtain a certifi-



## 80G BENEFITS: FILL ACCURATE DETAILS IN ITR, KEEP RECORDS

Details to be provided in ITR

- ▶ Name, PAN, address of the donee
- ▶ Amount of donation made in cash
- ▶ Breakup of contribution in cash and other modes
- ▶ Amount of deduction available based on eligibility criteria

Documents for future reference

- ▶ Donation receipts
- ▶ Form 10BE from the donee institution
- ▶ Form 58 is required to claim deductions falling under 100% criteria

Source: Accord Juris

cate of donation in Form 10BE from the recipient to claim this deduction in their tax returns." Cash donations are limited to ₹2,000.

## Section 80G(2)(b)

Section 80G(2)(b) is a subsection of 80G, focused on donations made to certain funds and charitable institutions specified by the government. It usually includes institutions engaged in activities like education, medical relief, and other social and community welfare programmes.

Contributions to Shri Ram Trust, for instance, are eligible for tax benefits under this section since 2020-21. Says Avinash Polepally, senior director, Clear: "Donations towards temple renovation or repair qualify for a 50 per cent deduction. However, deductions exceeding 10 per cent of adjusted gross total income will not be allowed. Donations for purposes other than temple repair and renovation will also not be allowed." Cash donations above ₹2,000

and non-monetary donations also do not qualify. Online or cheque donations are permissible. Polepally emphasises the importance of retaining donation receipts for claiming deduction.

## Section 80GGA

This section provides deductions for donations towards scientific research or rural development. The eligibility limit for donations under Section 80GGA is 100 per cent of the donation made.

Deductions are valid for cash (up to ₹2,000), cheques, demand drafts, or electronic transfers. However, individuals with business or professional income are not eligible for these deductions.

Says Ronodeep Dutta, counsel, AQUILAW: "If the expenditure is made for carrying out rural development programmes, the donor must furnish a certificate from the donee to the effect that it is an approved programme." No specific limit is mentioned for this deduc-

tion. Says Nikhil Varma, managing partner, MVAC Advocates & Consultants: "Contributions in cash exceeding ₹10,000 are not eligible for deduction."

## Section 80GGB

This section allows 100 per cent deductions (without any upper limit) to any Indian firm (registered under the Companies Act, 2013) for donations or contributions made to a registered political party or an electoral trust.

## Section 80GGC

It allows individuals to claim deductions for contributions made to political parties. Says Varma: "Contributions made in cash, as well as contributions by a local authority and a juridical person, do not qualify for tax deductions under Section 80GGC." Lay Razvi, partner, Accord Juris LLP points out that all donations must be made through banking channels. Funds from outside India are also not eligible.

Varma emphasises the importance of verifying a political party's registration status. Contributors must ascertain that the party is registered under Section 29A of the Representation of the People Act, 1951. A deduction of 100 per cent of the amount contributed can be availed. Dutta advises that contributors should request explicit acknowledgement on their receipts from the political party that the contributions are eligible for deductions under Sections 80GGB and 80GGC.

Finally, experts warn that some taxpayers take advantage of these provisions by making substantial donations to charitable trusts to lower their taxable income and ultimately reduce the amount of tax they owe. When a salaried person pays an exceptionally high amount to tax professionals, that acts as a red flag for the tax authorities. Under all circumstances, maintain proper proof of donations made to be able to prove the legitimacy of your claim.

**Form G (Revised)**  
**INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR ROYSONS CERAMICS PRIVATE LIMITED**  
(BUSINESS OF MANUFACTURING OF PRODUCTS AS GENERAL CASTABLE, CALCINED CLAY, HIGH ALUMINA CASTABLE, HIGH ALUMINA MORTAR, MAGNESITE RAMMING MASS, BED MATERIALS, ETC) AT WEST BENGAL.  
(Under sub-regulation (1) of regulation 36A of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

RELEVANT PARTICULARS	
1. Name of the corporate debtor along with PAN/CIN/LLP No.	ROYSONS CERAMICS PRIVATE LIMITED CIN: U26100WB2016PTC216993
2. Address of the registered office	8/41 Fern Road, 1st Floor Gariahat, Kolkata-700019, West Bengal, India.
3. URL of website	No Website of CD
4. Details of place where majority of fixed assets are located	Georandi Road, Hasanpur, P.O. Roshna, PS Barabani, Dist-Burdwan, Asansol-713315, West Bengal.
5. Installed capacity of main products/ services	Manufacturing of products as General Castable, Calcined Clay, High Alumina Castable, High Alumina Mortar, Magnesite Ramming Mass, Bed Materials, etc Installed Capacity of the plant is 30,000 TPA.
6. Quantity and value of main products/ services sold in last financial year	As per the Financial Year 2022-23 Quantity-NA Value- Total Revenue-₹s 3,00,13,962 (approx.)
7. Number of employees/ workmen	No details were received
8. Further details including last available financial statements (with schedules) of two years, lists of creditors, relevant dates for subsequent events of the process are available at:	a. Last available financial statements (with schedules) of two years can be obtained by mailing at <a href="mailto:cirp.roysons@gmail.com">cirp.roysons@gmail.com</a> b. List of Creditors available at the website of IBBI i.e. <a href="https://ibbi.gov.in/en/claims/claim-process/U26100WB2016PTC216993">https://ibbi.gov.in/en/claims/claim-process/U26100WB2016PTC216993</a>
9. Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at:	Can be obtained by mailing at <a href="mailto:cirp.roysons@gmail.com">cirp.roysons@gmail.com</a>
10. Last date of receipt of expression of interest	12th February, 2024
11. Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	15th February, 2024
12. Last date for submission of objections to provisional list	20th February, 2024
13. Date of issue of final list of prospective resolution applicants	22nd February, 2024
14. Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	20th February, 2024
15. Last date for submission of resolution plans	23rd March, 2024
16. Process email id to submit EOI	<a href="mailto:cirp.roysons@gmail.com">cirp.roysons@gmail.com</a>

**Rajesh Kumar Agrawal**  
Resolution Professional of Roysons Ceramics Private Limited  
IBBI/PA-001/IP-P0023/2017-18/11722  
AFA Valid till 22/11/2024  
Room No 301, 3rd Floor, 1 Ganesh Chandra Avenue, Kolkata 700013  
Date: 27/01/2024  
Place: Kolkata

**PROPERTY FOR SALE**  
Inviting bid in closed envelope for sale of property situated near Kerwa Dam, Bhopal. 17 ACRE FARMLAND WITH 4 BEDROOMS.  
For more details, Please visit [www.harshchandra.com](http://www.harshchandra.com)

**VEDIC REALTY PRIVATE LIMITED ("Corporate Debtor")**  
CIN : U45201WB1996PTC079333  
CORRIGENDUM  
With reference to the public announcement ("Form-A") dated 26th January 2024 published in "Business Standard"- All India edition dated 26 January 2024 inviting the attention of the creditors under Regulation 6 of The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, for submission of claims, the name of the Corporate Debtor should be read as "FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF VEDIC REALTY PRIVATE LIMITED" instead of "FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF VEDIC REALTY PRIVATE LIMITED".  
All other contents of the publication remains unchanged.  
Sd/- CA Kannan Tiruvengadam  
Liquidator  
Vedic Realty Private Limited  
IBBI/PA-001/IP-P0023/2017-18/10482  
"Netaji Subhas Villa" 18, Karunamoyee Ghat Road (Tollygunge Area), Flat 3C, Kolkata 700082, West Bengal, India  
Email : [calkannan@gmail.com](mailto:calkannan@gmail.com)/[cirp.vrpl@gmail.com](mailto:cirp.vrpl@gmail.com)  
Date : 29th January 2024 Authorization for Assignment is valid till 11th December 2024

**Colab Cloud Platforms Limited**  
(Formerly known as JSG Leasing Limited)  
CIN: L6593DL1989PLC038194  
Regd. Off.: 125, 2nd Floor, Shahpur Jat, New Delhi - 110049, India  
Phone: 8828865429 Email: [jsgleasinglimited@gmail.com](mailto:jsgleasinglimited@gmail.com)  
Web: [www.jsgleasinglimited.in](http://www.jsgleasinglimited.in)  
**POSTAL BALLOT NOTICE**  
NOTICE is hereby given that the Company is seeking approval of its members by way of postal ballot in respect of the following business matters:  
• Sub-division/split of the equity shares and consequent amendment to the capital clause of the memorandum of association;  
• Increase in Authorized share capital and consequent amendment to the capital clause of the memorandum of association;  
• Issue of bonus shares;  
• Shifting of registered office of the company from the state of Delhi to the state of Maharashtra at Mumbai;  
• Regularization of appointment of Mr. Rohit Indrajit Singh (DIN: 10455367) as a non-executive independent director of the company;  
• Regularization of appointment of Mrs. Anupriya Sharma (DIN: 10477666) as a non-executive independent woman director of the company.  
a) In this regard all the members are hereby informed that the Company has set out notice to its members for aforesaid resolutions to be transacted through postal ballot by voting through remote e-voting platform provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL) or by Postal Ballot Form.  
b) The Company has completed dispatch of the Postal Ballot Notice to the Members through permitted mode on 27th January 2024.  
c) The cut-off date for determining the eligibility to vote through remote e-voting shall be 19th January 2024.  
d) Persons whose name is recorded in the register of beneficial owners maintained as on the cut-off date, only shall be entitled to avail the facility of e-voting.  
e) The e-voting shall commence from 30th January 2024 (09:00 AM IST) and concludes on 28th February 2024 (05:00 PM IST).  
f) The remote e-voting mode shall be disabled by Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") thereafter.  
g) Postal Ballot Form received after 28th February 2024, will be strictly treated as if the reply from the member has not been received.  
h) Any person who acquires the shares and becomes the member of the company after the dispatch of the notice and hold shares as on the cut-off date i.e., 19th January 2024, may obtain login ID and password by sending request on [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com), to cast their vote electronically. However, if a person is already registered with CDSL for e-voting then existing User ID and password can be used to cast their vote.  
The results declared along with scrutinizer report within the prescribed period shall be displayed on the Company's Website and also communicated to the stock exchange. Members are requested to note that in case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer to the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) under help section or write an email to [helpdesk.evoting@cdsindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdsindia.com) or call on toll free no.: 1800 225 5333 or send a request at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com).

By Order of the Board  
For Colab Cloud Platforms Limited  
(Formerly known as JSG Leasing Limited)  
Place: Delhi Sd/-  
Date: 27th January 2024 Deepika Undhad  
Company Secretary and Compliance Officer  
Membership No: A41244

**ASSAM POWER DISTRIBUTION COMPANY LIMITED**  
(A. Govt. of Assam Public Limited Company)  
**TENDER NOTICE**  
Assam Power Distribution Company Limited (APDCL) invites Expression of Interest for providing Consulting services as the Project Management Consultant for the ADB funded 1000 MW Assam Solar Project. The details can be downloaded from [www.apdcl.org](http://www.apdcl.org) or <https://www.csrn.adb.org>  
Sd/- Chief General Manager (NRE),  
APDCL, Annex Building, Bijulee Bhawan, Paltanbazar, Guwahati-1  
Please pay your energy bill on time and help us to serve you better!

**IDBI BANK LTD.**  
Regd. Off. IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai 400 005  
CIN No: L65190MH2004GO148838  
**NOTICE**  
IDBI Bank Ltd (the Bank) invites applications for empanelment of Valuers/ Enforcement Agency/ Recovery Agency/ Detective Agency/ Security Agency/ E-Auction Service Providers, subject to the fulfillment of essential qualifications and experience as stipulated by the Bank. The applications can be submitted throughout the year. For details please visit IDBI Bank website. <https://www.idbibank.in>

**VEEFIN SOLUTIONS LIMITED**  
(Formerly known as Veeфин Solutions Pvt Ltd)  
CIN: U72900MH2020PLC347893  
Regd. Office: Off No - 601, 602 & 603, Neelekanth Corporate IT Park, Vidyavihar (w), Mumbai 400086. Email id: [investors@veefin.com](mailto:investors@veefin.com),  
**NOTICE OF THE EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING**

NOTICE is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting ("EGM") of the Company will be held on Thursday, 22nd day of February, 2024 at 4.00 P.M. via Video Conference / Other Audio Visual Means in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 read with General circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 20/2021, 21/2021, 3/2022 and 10/2022 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, December 8, 2021, December 14, 2021, May 5, 2022 and December 28, 2022 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HQ/CFD/CMD2/CIRP/P/2022/62 dated May 13, 2022 & Circular No. SEBI/HQ/CFD/PO-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) to transact the business as set out in the notice convening the EGM ("Notice").  
The Notice of the EGM along with the Explanatory statement will be sent only by electronic mode to members whose email addresses are registered with the Company/Depositories Participants ("DPs") Registrar and Transfer Agent ("RTA"), in accordance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Regulations. In case members who have not registered their e-mail address are requested to register the same in respect of shares held in electronic form with the Depository through their Depository Participant(s) and in respect of shares held in physical form by writing to the Company's Registrar and Share Transfer Agent, Bigshare Services Pvt Ltd, Office No SE-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East) Mumbai - 400093.  
The Notice and the Explanatory statement of EGM will also be available on the website of the company at [www.veefin.com](http://www.veefin.com), website of the Stock Exchange i.e. BSE SME at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com). Members can attend and participate in the EGM only through VC/OAVM. Members attending the Meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. In case of any queries write an email at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or contact NSDL team at Tel no.: 022 48867000 and 022 24997000 who will also address the grievances connected with the voting by electronic means. Members may also write to the Company Secretary at [investors@veefin.com](mailto:investors@veefin.com) or the registered office address. Kindly note that pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HQ/MRSD/ MIRSD-PO-1/P/CIR/ 2023/37 dated March 16, 2023, It has been made mandatory for shareholders holding shares of the Company in physical form, to furnish PAN, KYC details and Nomination details to the ("Company")/ ("RTA").  
The procedure and instructions for joining EGM through VC/OAVM and detailed procedure and instructions for casting votes through remote e-voting or e-voting during the EGM for all Members (including the Members holding shares in physical form/ whose email addresses are not registered with the DPs/Company/RTA) are stated in the Notice.

By Order of the Board  
For Veeфин Solutions Limited  
(Formerly known as Veeфин Solutions Pvt Ltd )  
Place: Mumbai Sd/-  
Date : 26th January, 2024 Urja Thakkar  
Company Secretary & Compliance Officer  
Membership No.: A42925

**FORM - II**  
**NEFA POWER TRADING PRIVATE LIMITED**  
Office No. 1628, Spaces, 16th & 17th Floor, Max Towers, DND Flyway, Sector 16B, Noida, Uttar Pradesh  
**NOTICE UNDER SUB-SECTION (2) OF SECTION 15 OF ELECTRICITY ACT, 2003**  
1. The NEFA Power Trading Private Limited ("NPTPL"), the company/ applicant above named, is a company incorporated on 29.11.2023 under Companies Act, 2013. has been granted license for inter State trading in electricity in all regions across India before the Central Electricity Regulatory Commission, New Delhi. The necessary details in respect of the license are as follows:  
i) Authorized issued, subscribed and paid-up capital:  
ii) Shareholding pattern (indicate the details of the shareholders holding 5% or more shares)  
iii) Financial and technical strength: NPTPL has requisite financial strength and experienced team with sufficient financial strength to undertake power trading business. NPTPL has full-time professionals having industry expertise in the power sector including power trading, regulatory affairs and finance. NPTPL is well placed to draw on its experience and work with various stakeholders in the Indian electricity system to build on this opportunity with the aid of its organized, skilled and experienced team. NPTPL is confident that the emerging regulatory and legislative changes in the power sector would enhance the competition which exists in the Indian electricity sector and provide more avenues and opportunities to NPTPL in the capacity of being a power trader.  
iv) Management profile of the application including details of past experiences of the applicant and of the promoters of the applicant in the regulated sector in generation, transmission, distribution and trading of electricity or similar activity.  
Mr. Biswajyoti Mukherjee is currently working as President of Power Trading with NPTPL. He has over 30 years of techno-commercial experience. His expertise ranges from all aspects of project execution, regulatory process, sale of power, long term power purchase agreements, systemic loss control and reduction, power trading, system operations and power purchase and distribution. Before his association with the Applicant, he has served with CESC Limited, Kolkata and Noida Power Company Limited. Mr. Mukherjee has had a diverse career in the power sector. Mr. Mukherjee acquired, Bachelor of Electrical Engineering from Jadavpur University, Kolkata.  
Pankaj Jain is engaged with NPTPL as General Manager, Finance. Mr. Jain has had an experience of around 13 years working in various fields including accounting, finance, commerce, audit and taxation. Before his association with the Applicant, he has served with CESC Limited, Kolkata and Noida Power Company Limited. Mr. Mukherjee has had a diverse career in the power sector. Mr. Mukherjee acquired, Bachelor of Electrical Engineering from Jadavpur University, Kolkata.  
v) Volume of electricity intended to be traded during the first year after grant of license and future plans of the application to expand volume of trading: Upto 500 MW.  
vi) Geographical areas within which the applicant will undertake trading in electricity: Across India.  
vii) Net worth as on 31st March of three consecutive years immediately preceding the year of application or for such lesser period as may be applicable and on the date of the special balance sheet accompanying the application: (values in INR)  
viii) Year-wise current ratio and liquidity ratio of the applicant for three years preceding the year in which the application is made, or for such lesser period as may be applicable and on the date of the special balance sheet accompanying the application:

Date	Net worth
27th December 2023 (on date of special balance sheet)	INR 2,46,47,558/-
31st March 2023	N/A
31st March 2022	N/A
31st March 2021	N/A

Date	Current Ratio	Liquidity Ratio
27.12.2023 (on date of special balance sheet)	29.91	29.91
31.03.2023	N/A	N/A
31.03.2022	N/A	N/A
31.03.2021	N/A	N/A

ix) (a) NPTPL is authorized to undertake trading in electricity under the Main Objects clause of its Memorandum of Association:  
(b) The said clause reads as:  
"1. To establish and carry on the business of trading in electricity and act as a trader in sale and purchase of electrical energy in any form and in any market in any country, including power exchange and derivatives market, and by any process and in any fuel, derivatives including but not limited to renewable energy certificates, carbon credits, energy conservation certificates, financially traded electricity forwards, or by products connected with or related to the generation and supply of electrical energy, enter into demand side management contracts, energy conservation contracts including energy performance contracts, megawatt contracts, enter into contracts for banking of electricity in accordance with the provisions of Electricity Act, 2003 or any statutory modifications or re-enactment thereof and rules or regulations made thereunder, to operate as an energy trading company and to get registered with appropriate agency including the Central Electricity Regulatory Commission, Bureau of Energy Efficiency or any other authority under the framework of Energy Conservation Act, 2001 and do all acts and things necessary or incidental thereto and to get registered with appropriate agency including the Central Electricity Regulatory Commission, Bureau of Energy Efficiency or any other authority under the framework of Energy Conservation Act, 2001 and do all acts and things necessary or incidental thereto and to get registered with appropriate agency including the Central Electricity Regulatory Commission, Bureau of Energy Efficiency or any other authority under the framework of Energy Conservation Act, 2001 and do all acts and things necessary or incidental thereto and to get registered with appropriate agency including the Central Electricity Regulatory Commission, Bureau of Energy Efficiency or any other authority under the framework of Energy Conservation Act, 2001 and do all acts and things necessary or incidental thereto and to get registered with appropriate agency including the Central Electricity Regulatory Commission, Bureau of Energy Efficiency or any other authority under the framework of Energy Conservation Act, 2001 and do all acts and things necessary or incidental thereto and to get registered with appropriate agency including the Central Electricity Regulatory Commission, Bureau of Energy Efficiency or any other authority under the framework of Energy Conservation Act, 2001 and do all acts and things necessary or incidental thereto and to get registered with appropriate agency including the Central Electricity Regulatory Commission, Bureau of Energy Efficiency or any other authority under the framework of Energy Conservation Act, 2001 and do all acts and things necessary or incidental thereto and to get registered with appropriate agency including the Central Electricity Regulatory Commission, Bureau of Energy Efficiency or any other authority under the framework of Energy Conservation Act, 2001 and do all acts and things necessary or incidental thereto and to get registered with appropriate agency including the Central Electricity Regulatory Commission, Bureau of Energy Efficiency or any other authority under the framework of Energy Conservation Act, 2001 and do all acts and things necessary or incidental thereto and to get registered with appropriate agency including the Central Electricity Regulatory Commission, Bureau of Energy Efficiency or any other authority under the framework of Energy Conservation Act, 2001 and do all acts and things necessary or incidental thereto and to get registered with appropriate agency including the Central Electricity Regulatory Commission, Bureau of Energy Efficiency or any other authority under the framework of Energy Conservation Act, 2001 and do all acts and things necessary or incidental thereto and to get registered with appropriate agency including the Central Electricity Regulatory Commission, Bureau of Energy Efficiency or any other authority under the framework of Energy Conservation Act, 2001 and do all acts and things necessary or incidental thereto and to get registered with appropriate agency including the Central Electricity Regulatory Commission, Bureau of Energy Efficiency or any other authority under the framework of Energy Conservation Act, 2001 and do all acts and things necessary or incidental thereto and to get registered with appropriate agency including the Central Electricity Regulatory Commission, Bureau of Energy Efficiency or any other authority under the framework of Energy Conservation Act, 2001 and do all acts and things necessary or incidental thereto and to get registered with appropriate agency including the Central Electricity Regulatory Commission, Bureau of Energy Efficiency or any other authority under the framework of Energy Conservation Act, 2001 and do all acts and things necessary or incidental thereto and to get registered with appropriate agency including the Central Electricity Regulatory Commission, Bureau of Energy Efficiency or any other authority under the framework of Energy Conservation Act, 2001 and do all acts and things necessary or incidental thereto and to get registered with appropriate agency including the Central Electricity Regulatory Commission, Bureau of Energy Efficiency or any other authority under the framework of Energy Conservation Act, 2001 and do all acts and things necessary or incidental thereto and to get registered with appropriate agency including the Central Electricity Regulatory Commission, Bureau of Energy Efficiency or any other authority under the framework of Energy Conservation Act, 2001 and do all acts and things necessary or incidental thereto and to get registered with appropriate agency including the Central Electricity Regulatory Commission, Bureau of Energy Efficiency or any other authority under the framework of Energy Conservation Act, 2001 and do all acts and things necessary or incidental thereto and to get registered with appropriate agency including the Central Electricity Regulatory Commission, Bureau of Energy Efficiency or any other authority under the framework of Energy Conservation Act, 2001 and do all acts and things necessary or incidental thereto and to get registered with appropriate agency including the Central Electricity Regulatory Commission, Bureau of Energy Efficiency or any other authority under the framework of Energy Conservation Act, 2001 and do all acts and things necessary or incidental thereto and to get registered with appropriate agency including the Central Electricity Regulatory Commission, Bureau of Energy Efficiency or any other authority under the framework of Energy Conservation Act, 2001 and do all acts and things necessary or incidental thereto and to get registered with appropriate agency including the Central Electricity Regulatory Commission, Bureau of Energy Efficiency or any other authority under the framework of Energy Conservation Act, 2001 and do all acts and things necessary or incidental thereto and to get registered with appropriate agency including the Central Electricity Regulatory Commission, Bureau of Energy Efficiency or any other authority under the framework of Energy Conservation Act, 2001 and do all acts and things necessary or incidental thereto and to get registered with appropriate agency including the Central Electricity Regulatory Commission, Bureau of Energy Efficiency or any other authority under the framework of Energy Conservation Act, 2001 and do all acts and things necessary or incidental thereto and to get registered with appropriate agency including the Central Electricity Regulatory Commission, Bureau of Energy Efficiency or any other authority under the framework of Energy Conservation Act, 2001 and do all acts and things necessary or incidental thereto and to get registered with appropriate agency including the Central Electricity Regulatory Commission, Bureau of Energy Efficiency or any other authority under the framework of Energy Conservation Act, 2001 and do all acts and things necessary or incidental thereto and to get registered with appropriate agency including the Central Electricity Regulatory Commission, Bureau of Energy Efficiency or any other authority under the framework of Energy Conservation Act, 2001 and do all acts and things necessary or incidental thereto and to get registered with appropriate agency including the Central Electricity Regulatory Commission, Bureau of Energy Efficiency or any other authority under the framework of Energy Conservation Act, 2001 and do all acts and things necessary or incidental thereto and to get registered with appropriate agency including the Central Electricity Regulatory Commission, Bureau of Energy Efficiency or any other authority under the framework of Energy Conservation Act, 2001 and do all acts and things necessary or incidental thereto and to get registered with appropriate agency including the Central Electricity Regulatory Commission, Bureau of Energy Efficiency or any other authority under the framework of Energy Conservation Act, 2001 and do all acts and things necessary or incidental thereto and to get registered with appropriate agency including the Central Electricity Regulatory Commission, Bureau of Energy Efficiency or any other authority under the framework of Energy Conservation Act, 2001 and do all acts and things necessary or incidental thereto and to get registered with appropriate agency including the Central Electricity Regulatory Commission, Bureau of Energy Efficiency or any other authority under the framework of Energy Conservation Act, 2001 and do all acts and things necessary or incidental thereto and to get registered with appropriate agency including the Central Electricity Regulatory Commission, Bureau of Energy Efficiency or any other authority under the framework of Energy Conservation Act, 2001 and do all acts and things necessary or incidental thereto and to get registered with appropriate agency including the Central Electricity Regulatory Commission, Bureau of Energy Efficiency or any other authority under the framework of Energy Conservation Act, 2001 and do all acts and things necessary or incidental thereto and to get registered with appropriate agency including the Central Electricity Regulatory Commission, Bureau of Energy Efficiency or any other authority under the framework of Energy Conservation Act, 2001 and do all acts and things necessary or incidental thereto and to get registered with appropriate agency including the Central Electricity Regulatory Commission, Bureau of Energy Efficiency or any other authority under the framework of Energy Conservation Act, 2001 and do all acts and things necessary or incidental thereto and to get registered with appropriate agency including the Central Electricity Regulatory Commission, Bureau of Energy Efficiency or any other authority under the framework of Energy Conservation Act, 2001 and do all acts and things necessary or incidental thereto and to get registered with appropriate agency including the Central Electricity Regulatory Commission, Bureau of Energy Efficiency or any other authority under the framework of Energy Conservation Act, 2001 and do all acts and things necessary or incidental thereto and to get registered with appropriate agency including the Central Electricity Regulatory Commission, Bureau of Energy Efficiency or any other authority under the framework of Energy Conservation Act, 2001 and do all acts and things necessary or incidental thereto and to get registered with appropriate agency including the Central Electricity Regulatory Commission, Bureau of Energy Efficiency or any other authority under the framework of Energy Conservation Act, 2001 and do all acts and things necessary or incidental thereto and to get registered with appropriate agency including the Central Electricity Regulatory Commission, Bureau of Energy Efficiency or any other authority under the framework of Energy Conservation Act, 2001 and do all acts and things necessary or incidental thereto and to get registered with appropriate agency including the Central Electricity Regulatory Commission, Bureau of Energy Efficiency or any other authority under the framework of Energy Conservation Act, 2001 and do all acts and things necessary or incidental thereto and to get registered with appropriate agency including the Central Electricity Regulatory Commission, Bureau of Energy Efficiency or any other authority under the framework of Energy Conservation Act, 2001 and do all acts and things necessary or incidental thereto and to get registered with appropriate agency including the Central Electricity Regulatory Commission, Bureau of Energy Efficiency or any other authority under the framework of Energy Conservation Act, 2001 and do all acts and things necessary or incidental thereto and to get registered with appropriate agency including the Central Electricity Regulatory Commission, Bureau of Energy Efficiency or any other authority under the framework of Energy Conservation Act, 2001 and do all acts and things necessary or incidental thereto and to get registered with appropriate agency including the Central Electricity Regulatory Commission, Bureau of Energy Efficiency or any other authority under the framework of Energy Conservation Act, 2001 and do all acts and things necessary or incidental thereto and to get registered with appropriate agency including the Central Electricity Regulatory Commission, Bureau of Energy Efficiency or any other authority under the framework of Energy Conservation Act, 2001 and do all acts and things necessary or incidental thereto and to get registered with appropriate agency including the Central Electricity Regulatory Commission, Bureau of Energy Efficiency or any other authority under the framework of Energy Conservation Act, 2001 and do all acts and things necessary or incidental thereto and to get registered with appropriate agency including the Central Electricity Regulatory Commission, Bureau of Energy Efficiency or any other authority under the framework of Energy Conservation Act, 2001 and do all acts and things necessary or incidental thereto and to get registered with appropriate agency including the Central Electricity Regulatory Commission, Bureau of



### भावी कार्ययोजना पर होगा मंथन

# ज़ी बोर्ड की राय लेंगे बड़े शेयरधारक

**देव चटर्जी और सभी मोडक मुंबई, 28 जनवरी**

ज़ी एंटरटेनमेंट प्रॉडर्राइजेज के शेयर में गिरावट के बीच उसके बड़े शेयरधारक भविष्य की कार्ययोजना के बारे में कंपनी के बोर्ड की राय लेने की योजना बना रहे हैं। अगर शेयरधारक कंपनी की भविष्य की योजनाओं से संतुष्ट होंगे तो वे नए निदेशकों के चुनाव के लिए शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक बुलाने को भी कह सकते हैं। एक संस्थागत सुद ने कहा कि यह कार्रवाई अगले सप्ताह की शुरुआत में की जाएगी और कंपनी के शेयर मूल्य में गिरावट के मद्देनजर ऐसा किया जा रहा है। सोनी पिक्चर्स नेटवर्कस इंडिया के साथ विलय सौदा 22 जनवरी को टूट जाने के बाद ज़ी के शेयर में भारी गिरावट आई है। इस बाबत जानकारी के लिए ज़ी के बड़े शेयरधारकों- एलआईसी, एचडीएफसी म्युचुअल फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्युचुअल फंड- को भेजे गए ईमेल का कोई जवाब नहीं आया। ज़ी

प्रतिशत विशुद्ध रूप से नए थे।

हाल ही में तीसरी तिमाही के परिणामों के दौरान इन्फोसिस के मुख्य कार्य अधिकारी और प्रबंध निदेशक सलिल पारेख ने कहा था कि इसमें एक बड़ सौदा भी शामिल है। हम अपनी टोपाज क्षमता का लाभ उठाते हुए जेनएआई कार्यक्रमों के लिए मजबूत मांग देख रहे हैं। हमने अपने जेनएआई घटकों को अपने सेवा पोर्टफोलियो में एकीकृत किया है, जिससे हमारे ग्राहक प्रभावित हो सकें। हमारे पास जेनएआई में प्रशिक्षित 1,00,000 कर्मचारी हैं।

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) ने कहा कि उसे जेनएआई के संबंध में ग्राहकों की ओर से मजबूत दिलचस्पी और जुड़ाव देखने को मिल रहा है। नतीजों के बाद विश्लेषकों के साथ बातचीत में टीसीएस के मुख्य कार्य अधिकारी और प्रबंध निदेशक के कृत्तिवासन ने कहा था कि मूल्य श्रृंखला के कई क्षेत्रों में पीओसी के रूप में संभावनाएं खंगाल रहे हैं।

पिछले साल विप्रो ने कहा था कि वह अगले तीन साल में अपनी एआई क्षमताओं में एक अरब डॉलर से अधिक का निवेश करेगी और उसने एआई-फस्ट नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र - विप्रो एआई360 भी पेश किया है। निवेश बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि विप्रो लगातार जेनएआई पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

# जेनएआई में बढ़ेगा निवेश

**इस वर्ष जेनएआई में अपना निवेश तेज कर सकती हैं सूचना प्रौद्योगिकी सेवा क्षेत्र की कंपनियां**



महीने में उसके द्वारा दर्ज किए गए 30 करोड़ डॉलर की तुलना में 50 प्रतिशत अधिक है। एक्सेंचर का वित्त वर्ष सितंबर से अगस्त तक होता है।

एआई में निवेश से एक्सेंचर को प्रतिफल मिलता नजर आ रहा है। पिछले साल उसने ग्राहकों को एआई के इस्तेमाल में तेजी से मदद पहुंचाने के लिए अपने डेटा और एआई की कवायद में तीन साल के दौरान तीन अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की थी। एक्सेंचर ने इस निवेश के तहत नियुक्ति, अधिग्रहण और प्रशिक्षण के जरिये अपनी एआई प्रतिभा दोगुनी करके इसे 80,000 कर्मचारियों तक करने की भी योजना बनाई है।

विश्लेषकों का मानना है कि आईटी

**आयुष्मान बरुआ**  
बेंगलूरु, 28 जनवरी

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सेवा कंपनियां इस वर्ष जेनरेटिव आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (जेनएआई) में अपना निवेश तेज कर सकती हैं क्योंकि ग्राहक प्रौद्योगिकी में संभावनाओं के लिए बजट आवंटित कर रहे हैं और पेड पीओसी (पूफ ऑफ कॉन्सेप्ट) के संचालन के इच्छुक हैं। एशिया-प्रांशत (एपीएस) क्षेत्र के ग्राहकों से उम्मीद है कि वे जेनएआई में अपना निवेश तीन गुना करेंगे, हालांकि अभी वे वे उत्तरी अमेरिकी के ग्राहकों से से पीछे हैं।

इन्फोसिस नॉलेज इंस्टीट्यूट के नवीनतम शोध के अनुसार अगले साल एशिया-प्रांशत क्षेत्र में जेनएआई के खर्च में 140 प्रतिशत का इजाफा होने की संभावना है। इस तरह ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, चीन, जापान, भारत और सिंगापुर में अनुमानित रूप से 3.4 अरब डॉलर का निवेश होगा।

हालांकि भारतीय आईटी सेवा कंपनियों ने अभी तक जेनएआई से होने वाले अपने राजस्व का हिसाब नहीं लगाया है लेकिन एक्सेंचर ने कहा है कि उसने नवंबर में समाप्त हुई पहली तिमाही के दौरान जेनएआई में 45 करोड़ डॉलर के सौदे हासिल किए हैं, जो पिछले छह

## सोफी बायोसाइंसेज एस्ट्राजेनेका कर रही 50 से अधिक परीक्षण जुबिलेंट फार्मा

जुबिलेंट फार्मावा की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जुबिलेंट फार्मा (जेपीएल) अमेरिका की थेराप्युस्टिक्स कंपनी सोफी बायोसाइंसेज में अपनी पूरी 25.8 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी 13.943 करोड़ डॉलर की अनुमानित राशि में बेचने जा रही है। जुबिलेंट फार्मा ने रविवार को यह घोषणा की। जुबिलेंट फार्मा ने नवंबर 2020 में सोफी बायोसाइंसेज में 2.5 करोड़ डॉलर का निवेश किया था और अब वह अपने निवेश से पूरी तरह बाहर निकलने की योजना बना रही है। सोफी बायोसाइंसेज उत्तरी अमेरिका की निजी इक्विटी फर्म ट्रिलॉटिक कैपिटल पार्टनर्स के साथ विलय की तैयारी कर रही है। यह सौदा 30 जून, 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है, जो सामान्य शर्तों और विनियामकी मंजूरी पर निर्भर करता है। यह विलय पूरा होने पर जुबिलेंट फार्मा को 11.363 करोड़ डॉलर मिलने का अनुमान है।

**कार्यालय पता में बदलाव हेतु सूचना**

<b>गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड</b> (पूर्व में मृणाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) <b>CIN: U65922PN2004PLC208751</b> पंजीकृत कार्यालय: 602, ८८वीं मंजिल, श्रीरंज नग आईटी पार्क, सर्वे नं. 79/1, चोरपल्ली, मुंबई नगर, मुंबी-411036, महाराष्ट्र, <b>भारत</b> । https://ग्रिहमहाउसिंग.कॉम <b>टेल नं:</b> 1800 266 3204	<b>GRIHM HOUSING FINANCE</b> <i>Apex Grp. Apex Finance</i>
हमारे सभी ग्राहकों, पंजीसिरी धारकों तथा जन साधारण को एतद्द्वारा बड़े पैमाने पर सूचना दी जाती है कि <b>पीतमपुर (दिल्ली)</b> स्थित शाखा को इसके वर्तमान से ये यहां स्थिते उल्लेखित विवरण के अनुसार स्थानांतरित किया जाएगा। किसी भी तरह के पत्राचार के लिए वर्तमान पता इस सूचना की तारीख से 90 दिनों की अवधि के लिए उपलब्ध रहेगा।	
<b>कार्यालय का पुराना पता</b>	<b>कार्यालय का नया पता</b>
बीभी मंजिल, ग्राुिनट नं.-477 अग्रवाल साइबर प्लाजा-2 नेताजी सुभाष प्लेस पीतमपुरा-110034	1203 एवं 1204 अग्रवाल कॉरपोरेट हाउसिंग नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा दिल्ली-110085

किसी भी व्यक्ति के पास इस शाखा के संबंध में अगर कोई भी प्रश्न अथवा अनसुलझी समस्या हो तो वे ऊपर उल्लेखित नए पते पर सम्पर्क कर सकते हैं।

आप हमसे **+91-1800-266-3204 (टोल फ्री)** अथवा ईमेल: **customercare@ग्रिहमहाउसिंग.कॉम** पर सम्पर्क करें

#### PUBLIC NOTICE

The undermentioned Sanjay Kumar Jain is the owner of agricultural land bearing Survey Number 22 situated at Bastipura Village, Belagola Hobli, Mysore Taluk, Karnataka. I have lost the following Original Documents with respect to my abovesaid land and the same are not traceable:

- Agreement for Sale dated 11.05.2009 bearing Registration No. 414/09-10 and CD No. SRPD44.
- Cancellation of Agreement for Sale dated 26.05.2011 bearing Registration No.863/11-12 and CD No. SRPD63.

In this regard, I have lodged an Information Report with Station House Officer, Crime Branch, Delhi on 22.01.2024. If any person has information or custody of the above said Original Documents, is/are hereby requested to deliver the same to me at the below address or deposit it with the nearest Police Station and inform me at the below address/mobile number.

**Sanjay Kumar Jain**  
S/o Late Shri Mahesh Chand Jain  
Mohalla Saravagan, Near New Dharamshala, Kandhala District, Muzaffar Nagar, Uttar Pradesh - 247 575  
Mob: 9910391074

#### PUBLIC NOTICE

The undermentioned Sanjeev Kumar Jain is the owner of Agricultural land bearing Survey Numbers 25/3,26/1A,26/1B and 26/3 situated at Bastipura Village, Belagola Hobli, Mysore Taluk, Karnataka. I have lost the following Original Documents with respect to the above-mentioned land and the same are not traceable:

- Sale Deed dated 20.09.2005 bearing Registration No. 1635/05-06 and CD No. SRPD11.
- Sale Deed dated 23.09.2005 bearing Registration No.01685/05-06 and CD No. SPRI2.
- Sale Deed dated 23.09.2005 bearing Registration No. 01686/05-06 and CD No.12.

In this regard, I have lodged an Information Report with Station House Officer, Crime Branch, Delhi on 22.01.2024. If any person has information or custody of the above said Original Documents, is/are hereby requested to deliver the same to me at the below address or deposit it with the nearest Police Station and inform me at the below address/mobile number.

**Sanjeev Kumar Jain**  
S/o Sri Sumat Prasad Jain  
286, Pattimunda, Nehru Nagar, Near Bada Jain Mandir, Khekda, Bagpatha District, Uttar Pradesh - 250101  
Mob: 9910391074

## 2 कंपनी समाचार

### संक्षेप में

## पीएनबी ने मुनाफे का

## अनुमान बढ़ाया

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अपने मुनाफे का अनुमान बढ़ाकर 7,000 करोड़ से 7,500 करोड़ रुपये कर दिया है। बैंक ने तीसरी तिमाही में शानदार प्रदर्शन से उत्साहित होकर ऐसा किया है। देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक ने इससे पहले कहा था कि चालू वित्त वर्ष में उसका मुनाफा 6,000 करोड़ रुपये रह सकता है। पीएनबी का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में सालाना आधार पर 253 प्रतिशत बढ़ा था। इसके साथ ही चालू वित्त वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में उसका मुनाफा 5,230 करोड़ रुपये को पार कर गया। *भाषा*

## मैक्रोटेक डेवलपर्स शुरू करेगी 11 परियोजनाएं

रियल एस्टेट क्षेत्र की कंपनी मैक्रोटेक डेवलपर्स इस तिमाही में मुंबई, पुणे और बेंगलूरु में 11 परियोजनाएं शुरू करेगी। इन परियोजनाओं की कुल राजस्व क्षमता 6,260 करोड़ रुपये है। मैक्रोटेक डेवलपर्स की मुख्य रूप से मुंबई महानगर क्षेत्र और पुणे में उपस्थित है। कंपनी लोहा ब्रांड के तहत अपनी संपत्तियां बेचती है। कंपनी ने एक निवेशक प्रस्तुति में कहा कि उसके पास 2023-24 की चौथी तिमाही में परियोजनाओं को पेश करने की मजबूत तैयारी है। कंपनी जनवरी-मार्च तिमाही के दौरान 44 लाख वर्ग फुट क्षेत्र की पेशकश करेगी। *भाषा*

## सीएनएच भारत में करेगी

## 5 करोड़ डॉलर का निवेश

इतालवी-अमेरिकी ऑफ रोड निर्माण और कृषि कंपनी सीएनएच इस साल भारत में कृषि मशीनरी खंड में पांच करोड़ डॉलर का निवेश करेगी। इसके अलावा कंपनी का इरादा इस साल मई में 105 एचपी का ट्रैक्टर भी उतारने का है। सीएनएच इंडिया के एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी। *भाषा*

## एसी पर पीएलआई योजना ‘पासा पलटने वाली’

एयर कंडीशनर (एसी) उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना ‘पास पलटने’ वाली साबित हो रही है। पैनासोनिक लाइफ सॉल्यूशंस इंडिया के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि इस योजना के डेढ़ साल के भीतर घरेलू मूल्यवर्धन का अनुपात 25 प्रतिशत से बढ़कर 45 प्रतिशत हो गया है। पैनासोनिक लाइफ सॉल्यूशंस के भारत और दक्षिण एशिया के चेयरमैन मनीष शर्मा ने कहा कि एयर-कंडीशनर के लिए पीएलआई योजना का एकमात्र उद्देश्य कल्पयुजों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करके वित्त वर्ष 2027-28 तक मूल्यवर्धन को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करना है। *भाषा*

<b>IDBI BANK</b> CIN No: L65190MH2004G0148838	<b>आईडीबीआई बैंक लि.</b> <b>रजि. कार्यालय:</b> आईडीबीआई टॉवर, डल्ह्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 05
<b>सूचना</b>	
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (बैंक) निर्धारित आवश्यक योग्यताओं और अनुभव को पूरा करने के अधीन मूल्यांकनकर्ताओं/ प्रवर्तन एजेंसी/ वसूली एजेंसी/ गुप्तचर एजेंसी/ सुरक्षा एजेंसी/ ई-नीलामी सेवा प्रदाताओं को सूचीबद्ध करने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है. आवेदन पूरे वर्ष जमा किए जा सकते हैं. विस्तृत जानकारी के लिए कृपया आईडीबीआई बैंक की वेबसाइट: <a href="https://www.idbibank.in">https://www.idbibank.in</a> देखें	

<b>कोलाब क्लाउड प्लेटफॉर्मस लिमिटेड</b> (पूर्व में <b>एवोटींग लीमिटेड</b> के रूप में स्थित) <b>सीआईएन<span> </span>:</b> L65993DL1989PLC038194 <b>पंजी. कार्यालय<span> </span>:</b> 125, दिलीप तल, शापुरी रोड, नई दिल्ली - 110049, भारत <b>दूरभाष<span> </span>:</b> 8828685429, ईमेल <span> </span> : <a href="mailto:jsleaseninglimited@gmail.com">jsleaseninglimited@gmail.com</a> <b>वेब<span> </span>:</b> <a href="http://www.jsleaseninglimited.ltd">www.jsleaseninglimited.ltd</a> <b>डाक मतपत्र सूचना</b>	
<b>एवसबू</b> ख़ुश किया जाता है कि कंपनी निम्नलिखित व्यावसायिक विषयों के संबंध में डाक मतपत्र के माध्यम से अपने सदस्यों का अनुमोदन मांग रही है। <ul style="list-style-type: none"><li>इक्विटी शेयरों का उपा-विभाजन/विभाजन और परिणामस्वरूप एगोसिएशन के ज्ञान के पूंजी खंड में संशोधन.</li><li>प्राधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि और परिणामस्वरूप एगोसिएशन के ज्ञान के पूंजी खंड में संशोधन.</li><li>बोनस शेयर जारी करना.</li><li>कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को दिल्ली राज्य से महाराष्ट्र राज्य के मुंबई में स्थानांतरित करना.</li><li>कंपनी के एक अ-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री शोभित इन्डजीत सिंह (सीआईएन<span> </span>: 10455367) की नियुक्ति का निम्नलिखितकेंद्र.</li><li>कंपनी की एक अ-कार्यकारी स्वतंत्र महिला निदेशक के रूप में श्रीमती अनुग्रिया शर्मा (सीआईएन<span> </span>: 10477660) की नियुक्ति का निम्नलिखितकेंद्र।</li></ul> इस संबंध में सभी सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी ने अपने सदस्यों को सेंद्रस डिजिटली सॉल्यूशंस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा प्रदान किये गये रिमोट ई-नॉटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से या पोर्टलवें बैसेट फॉर्म द्वारा मतदान करके पोर्टलवें बैसेट के माध्यम से उपरोक्त संकल्पों को स्वी करने की दिशि सूचना दी है।	
<ul style="list-style-type: none"><li>कंपनी ने 27 जनवरी 2024 को अनुमत्त माध्यम से सदस्यों को डाक मतपत्र सूचना भेजने का कार्य पूरा कर लिया है।</li><li>रिमोट ई-नॉटिंग के माध्यम से मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने की अंतिम तिथि 19 जनवरी 2024 होगी।</li><li>जिन व्यक्तियों के नाम बट-ऑफ तिथि के अनुसार बनाए गए लामार्फ सूचियों के रजिस्टर में दर्ज हैं, केवल वे ही ई-नॉटिंग की सुविधा प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।</li><li>ई-नॉटिंग 30 जनवरी 2024 (09:00 बजे आईएस्टी) से आरंभ होगी और 28 फरवरी 2024 (05:00 बजे आईएस्टी) को समाप्त होगी।</li><li>इसके बाद रिमोट ई-नॉटिंग मॉड्यूल को सेंद्रस डिजिटली सॉल्यूशंस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा अंमल कर दिया जाएगा।</li><li>28 फरवरी 2024 के बाद प्राप्त डाक मतपत्र फॉर्म को पूर्णतःप्रण इधर रूप में माना जायेगा जैसे कि सदस्य से उत्तर ही प्राप्त नहीं हुआ है।</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>कोई भी व्यक्ति जो शेयर प्राप्त करता है और सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और बट-ऑफ तिथि अंन्तु 19 जनवरी 2024 के अनुसार शेयर रखता है, वह इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने के लिये <a href="http://www.evotingindia.com">www.evotingindia.com</a> पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति पहले से ही ई-नॉटिंग के लिये सीडीएसएल के साथ पंजीकृत है तो वोट डालने के लिये विद्यमान रूप आईडी और पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है।</li></ul>	
निर्धारित अवधि के अंदर संबंधीक की रिपोर्ट के साथ अधिक परिणाम, कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जायेंगे और स्टर्क एक्सचेंज को भी सूचित किये जायेंगे। सदस्यों से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि यदि आपके पास ई-नॉटिंग के संबंध में कोई भ्रम या समस्या है, तो आप महाराजा अनुमार्ग के अंतर्गत <a href="http://www.evotingindia.com">www.evotingindia.com</a> पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एक्सएचए) और ई-नॉटिंग मनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या <a href="mailto:helpdesk.evoting@cdsindia.com">helpdesk.evoting@cdsindia.com</a> पर एक एक ईमेल लिख सकते हैं अथवा टोल फ्री नंबर <span> </span> : 1800 22 55 33 पर कॉल करें अथवा <a href="http://www.evotingindia.com">www.evotingindia.com</a> पर एक अनुरोध भेजें।	
<b>कोई के आदेशानुसुर कृते कोलाब क्लाउड प्लेटफॉर्मस लिमिटेड (पूर्व में एवोटींग लीमिटेड के रूप में स्थित)</b> <b>रजान<span> </span>:</b> दिल्ली <b>हस्ता /—</b> <b>दिनांक<span> </span>:</b> 27 जनवरी 2024 <b>दौकिका चंइइ</b> <b>कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी</b> सदस्यता सं: P 41244	

**दिल्ली संस्करण :** बिजनेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक नंदन सिंह रावत द्वारा द इंडियन एक्सप्रेस (प्रा) लिमिटेड, ए-8, सेक्टर-7, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर-201301, उ.प्र. से मुद्रित एवं नेहरू हाउस, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नईदिल्ली से प्रकाशित  
संपादक : कैलाश नौटियाल आरएनआई नं., DELHIN/2008/27804 पाठक संपादक को [lettershindi@bsmail.in](mailto:lettershindi@bsmail.in) पर संदेश भेज सकते हैं। टेलीफोन - 033-22101314/1022/1600 फैक्स - 033-22101599

सबस्क्रिप्शन और सेंकुरेडके लिए संपर्क करें... सूची मानसिी सिंह हेड, कन्ट्रर रिसेलन्स बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, तीसरी और चौथी मंजिल, बिल्डिंग एच, पैरामन सेंटर, सेचुरी मिन्स के सामने, पी भी मार्ग, वर्ली, मुंबई 400 013 ईमेल... subs\_bs@bsmail.in या 57575 पर एसएमएस करें REACHBS कोई हवाई अधिार नहीं